



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1982/फाल्गुन 5, 1903  
No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1982/PHALGUNA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

कृषि मंत्रालय

(बाग्य विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी 1982

सां०कां० 79(अ) आ०ब०/गन्ना—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक  
वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 क 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करने हेतु, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का  
निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्—

1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश  
1982 है।

(2) यह मूल्य प्रवृत्त होगा।

2 गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5क के उपखण्ड (9) के  
पराबान्ति निम्नलिखित उपखंड अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(10) यदि, यथास्थिति उपखंड (2) या उपखंड (3) के अधीन  
अवधारित अतिरिक्त कीमत, गन्ना उत्पादक द्वारा दावान किए जाने के  
कारण या किसी अन्य कारण से असंवेत रह जाती है तो यह चीनी  
उत्पादक द्वारा, चीनी वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर उस  
जिला के कलक्टर के पास जमा करवा जाएगी जिसमें कारखाना  
अवस्थित है। कलक्टर इस प्रकार जमा का गई रकम में से उन  
महीने वर्षों के लिए जो वह संवेद्य समझता है और जो उसके समक्ष  
किए गए हैं उस चीनी वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर संवाय  
करेगा जिसमें गन्ने का कारखाने को प्रदाय किया गया था। गन्ना

उत्पादक के वर्षों को पूरा करने के परवाना भी कलक्टर के पास  
अवस्थित रकम तीन वर्ष की उस समय सीमा की समाप्ति के तुरन्त  
पराबान्ति कलक्टर द्वारा राज्य की समेकित विधि में जमा कर दी  
जाएगी जिसके भीतर दावा गन्ना उत्पादकों द्वारा उसके लिए किया  
जा सकता था। राज्य सरकार ऐसी रकम का उपयोग, जहाँ तक संभव  
हो राज्य में गन्ना विकास के लिए करेगी।”

[सं० 1-10/81-एस पी वार्ड (डी II)]

सां०कां० गवर्नर संयुक्त सचिव (चीनी)

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का निम्नलिखित अधिवृत्तियों द्वारा  
संशोधन किया जा चुका है।

1. सां०कां० 1126/आ०ब०/गन्ना, तारीख 16-7-1966
2. सां०कां० 35/आ०ब०/गन्ना, तारीख 5-1-1967
3. सां०कां० 1591/आ०ब०/गन्ना तारीख 17-10-1967
4. सां०कां० 915/आ०ब०/गन्ना तारीख 18-5-1968
5. सां०कां० 1456/आ०ब०/गन्ना तारीख 2-8-1968
6. सां०कां० 620/आ०ब०/गन्ना, तारीख 8-4-1970
7. सां०कां० 102/(अ)/आ०ब०/गन्ना, तारीख 25-9-1974
8. सां०कां० 492/(अ) आ०ब०/गन्ना, तारीख 12-9-1975
9. सां०कां० 542/(अ)/आ०ब०/गन्ना, तारीख 27-10-1975
10. सां०कां० 484/(अ)/आ०ब०/गन्ना, तारीख 26-7-1976
11. सां०कां० 799(अ)/आ०ब०/गन्ना, तारीख 13-9-1976
12. सां०कां० 815/अ)/आ०ब०/गन्ना, तारीख 25-9-1976
13. सां०कां० 913/(अ)/आ०ब०/गन्ना, तारीख 9-12-1976

14. सांकांति० 62(घ)/आव०/गन्ना, तारीख 2-2-1978  
 15. सांकांति० 197(घ)/आव०/गन्ना, तारीख 28-3-1978  
 16. सांकांति० 427(अ)/आव०/गन्ना, तारीख 3-7-1981

# MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

## ORDER

New Delhi, the 24th February, 1982

**G.S.R. 79(E)/Ess. Com./Sugarcane.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane Control Order, 1966, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 1982.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, after sub-clause (9) of clause 5A, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(10) In case, the additional price determined under sub-clause (2) or sub-clause (3), as the case may be remains unpaid on account of the sugarcane grower not coming forward to claim it or for any other reason, it shall be deposited by the producer of sugar with the Collector of the District in which the factory is situated, within six months of the close of the sugar year. The Collector shall pay, out of the amount so deposited, all claims, considered payable by him and preferred before him

within three years of the close of the sugar year in which the sugarcane was supplied to the factory. The amount still remaining undistributed with the Collector, after meeting the claims of the sugarcane growers, shall be credited by him to the Consolidated Fund of the State, immediately after the expiry of the time limit of three years within which claims therefor could have been preferred by the sugarcane growers. The State Government shall, as far as possible, utilise such amounts, for the development of sugarcane in the State.”

[No. 4-10-SPY (DII)]

C. N. RAGHAVAN Jt. Secy. (Sugar)

The Sugarcane (Control) Order, 1966, has been subsequently amended by the following notifications, namely :—

1. G.S.R. 1126/Ess. Com./Sugarcane, dated 16-7-1966.
2. G.S.R. 35/Ess. Com./Sugarcane, dated 5-1-1967.
3. G.S.R. 1591/Ess. Com./Sugarcane, dated 17-10-1967.
4. G.S.R. 945/Ess. Com./Sugarcane, dated 18-5-1968.
5. G.S.R. 1456/Ess. Com./Sugarcane, dated 2-8-1968.
6. G.S.R. 620/Ess. Com./Sugarcane, dated 8-4-1970.
7. G.S.R. 402(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 25-9-1974.
8. G.S.R. 492(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 12-9-1975.
9. G.S.R. 542(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 27-10-1975.
10. G.S.R. 484(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 26-7-1976.
11. G.S.R. 799(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 13-9-1976.
12. G.S.R. 815(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 25-9-1976.
13. G.S.R. 913(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 9-12-1976.
14. G.S.R. 62(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 2-2-1978.
15. G.S.R. 197(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 28-3-1978.
16. G.S.R. 427(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 3-7-1981.